

SANGAM (INDIA) LIMITED

CIN : L17118RJ 1984PLC 003173

E - mail : secretarial@sangamgroup.com

Website : www.sangamgroup.com | Ph : +91-1482-245400-06



Value through values

Ref: SIL/SEC/2024-25

Date: 13th August, 2024

The Manager, Department of Corporate Services, The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) <u>Mumbai - 400051</u> Scrip Code: 5251	The Manager, Department of Corporate Services, Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, <u>MUMBAI - 400 001</u> Scrip Code: 514234
--	---

Dear Sir/Madam,

Scrip Code: 514234


Sub.: Submission of copy of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 published in the newspapers.

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the Copy of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2024 published in Business Standard (English) and Dainik Bhaskar (Hindi).

Hope you will find the same in order and take the same on record.

Yours faithfully
For Sangam (India) Limited

Arjun Agal
(Company Secretary
& Compliance Officer)



DOLLAR
WEAR THE CHANGE
DOLLAR INDUSTRIES LIMITED
(CIN : L17299WB1993PLC058969)

Registered Office : OM Tower | 15th Floor | 32, J.L. Nehru Road | Kolkata - 700 071 | West Bengal | India
Phone No : 033-2288 4064-66 | Fax : 033-2288 4063 | E-mail : investors@dollarglobal.in | Website : www.dollarglobal.in

Extracts of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

Sl No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Three Months Ended		Year Ended		Three Months Ended		Year Ended	
		30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024	30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	32,197.57	48,836.91	31,891.82	1,54,912.90	33,373.36	49,995.98	32,823.93	1,57,227.45
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	1,835.86	4,397.05	1,782.19	11,866.99	2,151.63	4,627.85	1,934.55	12,172.51
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items #)	1,835.86	4,397.05	1,782.19	11,866.99	2,151.63	4,627.85	1,934.55	12,172.51
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extra-ordinary items#)	1,354.81	3,201.91	1,409.57	8,939.04	1,600.14	3,359.88	1,513.06	9,137.01
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	1,367.85	3,217.29	1,426.02	9,003.96	1,613.18	3,380.29	1,529.51	9,206.96
6	Equity Share Capital	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32	1,134.32
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	77,938.13	-	-	-	76,975.87
8	Earnings per share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic and Diluted (Not Annualised for the quarter)*	2.39	5.65	2.49	15.76	2.70	5.83	2.56	15.90


The Company does not have any Exceptional and/or Extra-ordinary items. * Not Annualised except for the year ended March 31, 2024.

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Un-audited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.dollarglobal.in).
2. The Company has prepared the Consolidated Financial Statement on quarterly basis and the Consolidated Financial figures include joint venture of the Company viz. Pepe Jeans Innerfashion Private Limited and subsidiary viz. Dollar Garments Private Limited.

Place : KOLKATA
Date : Aug 12, 2024

OUR COLLECTIONS

By Order of the Board of Directors
For Dollar Industries Limited
Sd/-
Vinod Kumar Gupta
(Managing Director)
DIN: 00877949



SANGAM (INDIA) LIMITED
CIN: L1718RJ1984PLC003173
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024
(₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			
		30.06.24	31.03.24	30.06.23	31.03.24
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	69810	70480	67948	264085
2	Net Profit/(Loss) before Exceptional & Extraordinary Items & tax	2124	2091	2068	6003
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1958	1925	1902	5339
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1428	1366	1277	4082
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1662	1289	1406	4047
6	Paid-up Equity Share Capital	5025	5025	5025	5025
7	Other Equity				93407
8	Earning per share (not annualised) (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted (In ₹)	3.17	3.08	2.90	9.55
9	Earning per share (not annualised) (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted (In ₹)	2.84	2.75	2.57	8.21

Notes:
1. The above audited Consolidated financial results for the quarter ended 30th June, 2024 have been prepared by the Company in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and were reviewed by the Audit Committee of the Board and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2024.
2. "As per regulation 47(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 result on standalone basis for the quarter ended 30th June, 2024 is given: 1) Total Income from operations: ₹70261 Lakhs 2) Profit/Loss Before Tax: ₹1772 Lakhs and 3) Profit/Loss After Tax: ₹1275 Lakhs"
3. Based on the management approach as defined in Ind AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker (CODM) evaluates the company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators of business segments in which the company operates. The Company is primarily engaged in the business of textile manufacturing which the management and CODM recognise as the sole business segment. Hence, disclosure of segment-wise information is not required and accordingly not provided.
4. The Exceptional items includes proportionate value of sweat equity shares which were issued during the Year ended 31st March, 2023.
5. The Company's projects under progress are going on as per its expansion plans.
6. The EPS earnings for the quarters ended 30th June, 2024, 31st March 2024 and 30th June 2023 are not annualised.
7. The figures of the previous period have been re-grouped / rearranged and / or recast wherever considered necessary. The figures of the quarter ended 31st March, 2024 were the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and reviewed year to date figures upto the third quarter of the previous financial year.
8. The above is an extract of the detailed Consolidated Financial Result for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Standalone and Consolidated financial results are available on the stock Exchanges websites at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.sangamgroup.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
(R.P. Soni)
Chairman

Date: August 12, 2023
Place: Bhillwara

Regd.Off. : Atun, Chittorgarh Road, Bhillwara-311001 (Raj.)
Phone: 01482-245400, Fax: 01482-245450 Web: www.sangamgroup.com, Email: secretarial@sangamgroup.com



एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
SJVN Green Energy Limited
(एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
CIN: U40100HP2022GOI009237


E-Tender No. : SGEL/CONTRACTS/LAND- Rajasthan /2024

Online bids (E-tender) on Domestic Competitive Bidding (DCB) are invited on behalf of SJVN Green Energy Limited for "Outright Purchase/Lease for 28 Years' of Land up to 2000 Acres in the vicinity of 765/400/220 kV Bikaner-IV Pooling Station, Rajasthan for setting up Solar Power Project(s) upto cumulative capacity of 500 MW".

For details, visit websites: <https://www.bharat-electronicstender.com>, www.eprocure.gov.in and www.sjvn.nic.in. Last date for bid submission is **03.09.2024 (14:00 Hrs)**.

Amendment(s), if any, shall be issued on websites only.

DGM (Contracts)
SJVN Green Energy Limited
Corporate Headquarters, Shakti Sadan, Shanan, Shimla (H.P.)
Email- contracts.sgel@sjvn.nic.in



Indian Overseas Bank
INVESTOR RELATIONS CELL
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai-600002

Ref. No: IOB/IRC/RFP/01/2024-25 dated 12th August, 2024


Indian Overseas Bank invites proposal for the following activity from reputed Bidders:

FOR SELECTION OF BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (BRLMs)/ MERCHANT BANKERS FOR RAISING EQUITY CAPITAL THROUGH QUALIFIED INSTITUTIONAL PLACEMENT (QIP)/ FOLLOW ON PUBLIC OFFER (FPO)/ OTHER PERMITTED MODES

The last date and time for the receipt of Bid is 03rd September 2024 by 4:00 p.m. The RFP document for the above is available on the Bank's website at <https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=Tender> as well as e-tender site <https://iobtenders.auctiontiger.net/EPROC/>. Amendments and clarifications etc. if any, will be available on above mentioned websites only. Bidders should refer the same before submission of the proposal and no separate advertisement will be published in this regard.

Place: Chennai
Date: 12.08.2024

S P Mahesh Kumar
General Manager & CFO



BOROSIL RENEWABLES LIMITED
CIN: L26100MH1962PLC012538
Regd. Office : 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051
Tel : (022) 67406300, Fax : (022) 67406514, Website: www.borosilrenewables.com, Email: investor.relations@borosilrenewables.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(Rs. in Lakhs except as stated)

Sl. No.	Particulars	Standalone		Consolidated			
		Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023
1	Total Income from operations	24,139.57	98,587.40	23,781.92	37,079.21	1,36,928.34	35,449.91
2	Net (Loss)/Profit for the period/year before Tax and Exceptional items	(499.48)	(2,133.52)	1,847.82	(1,556.93)	(8,517.13)	(675.08)
3	Net (Loss)/Profit for the period/year before Tax (After Exceptional items)	(499.48)	(2,133.52)	1,847.82	(1,556.93)	(5,272.91)	(675.08)
4	Net (Loss)/Profit for the period/year after Tax (After Exceptional items)	(364.33)	(1,652.42)	1,367.90	(1,423.80)	(5,027.36)	(1,153.08)
5	Total Comprehensive Income for the period / year (Comprising (Loss)/profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(376.32)	(1,700.37)	1,363.79	(1,529.66)	(5,092.57)	(1,216.85)
6	Equity Share Capital	1,305.38	1,305.38	1,305.21	1,305.38	1,305.38	1,305.21
7	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)		84,869.66			86,000.33	
8	Earning per equity share (in Rs.) (Face value of Re. 1/- each)						
	Basic (Not Annualised)*	(0.28)*	(1.27)	1.05*	(0.99)*	(3.59)	(0.64)*
	Diluted (Not Annualised)*	(0.28)*	(1.27)	1.05*	(0.99)*	(3.59)	(0.64)*

1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024, filed with the Stock Exchanges on 12th August, 2024 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.borosilrenewables.com).

2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 12th August, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the above results.

For Borosil Renewables Limited
Ashok Jain
Whole-Time Director
(DIN-00025125)

Place : Mumbai
Date : 12th August, 2024



VOLTAS
A TATA Enterprise

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024

(₹ In Crores)

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income	5001.27	3429.83	4257.30	12734.47
Profit from operations before share of profit of joint ventures and associates and tax	480.87	233.95	212.40	624.41
Share of profit / (loss) of joint ventures and associates	(29.35)	(31.04)	(38.32)	(138.61)
Profit before tax	451.52	202.91	174.08	485.80
Net Profit for the period	335.00	129.42	110.64	248.11
Total Comprehensive Income for the period	420.38	272.16	166.82	503.15
Paid up equity share capital (Face value ₹ 1/- each)	33.08	33.08	33.08	33.08
Earning per share (* not annualised)				
Basic and diluted (₹)	*10.10	*3.91	*3.52	7.62

Notes :
1. These results have been reviewed by the Board Audit Committee at its Meeting held on 11th August, 2024 and approved by the Board of Directors at its Meeting held on 12th August, 2024.
2. Information on Standalone Financial Results:

(₹ In Crores)

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
Total Income	4069.85	2805.49	3121.31	8987.76
Profit before tax	427.17	269.53	232.36	758.20
Net Profit for the period	339.14	214.61	190.31	604.26

3. The Group had entered into a sub-contract along with a consortium partner with a Main Contractor, through its branch in Qatar in the year 2010. The Main Contract between the Ultimate customer and the Main Contractor was terminated closer to the completion of the contract in 2014 citing delays and defects in execution and non-compliance of contractual terms by the Main Contractor leading to arbitration between the Main Contractor and the Ultimate customer, for which, the final award is pending. The Group had performed a comprehensive assessment of the losses arising on account of such termination of the Main contract and cessation of work and accounted for all probable losses on the sub-contract in the earlier years.

The Group had issued bank guarantees amounting to ₹ 381 crores (QAR 166.6 million) to the Main Contractor which has been disclosed as a contingent liability over the years. In June 2023, the Group was intimated of a request received by the bank from the Main Contractor for encashment of the said bank guarantees, which due to certain deficiencies was not paid by the bank to the Main Contractor and the matter is under litigation between the Main Contractor and the Bank. Further, the Group and the Main Contractor have filed claims and counter claims against each other with Investment and Trade Court (Qatar) and a panel of Experts have been appointed to independently assess the claims. In view of the claim lodged for encashment of the bank guarantees and related developments, the Group has re-assessed its liability under the sub-contract and basis such internal assessment on technical merits of the case and a report submitted by an independent technical expert including legal opinion by an independent lawyer on the contractual aspects, is confident that it has good grounds to defend any claims that may arise on the Group. Accordingly, no further provision has been considered in the above financial results. The Group has taken all necessary steps, including legal remedies to safeguard and defend itself. The matter is sub-judice and the Group is closely monitoring the developments as they arise.

4. Figures of the quarter ended 31st March, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year which were subjected to limited review by Auditors.

5. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review" of the aforesaid financial results.


6. The above is an extract of the detailed format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.voltas.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Voltas Limited
Pradeep Bakshi
Managing Director & CEO


Mumbai, 12th August, 2024

VOLTAS LIMITED


Registered Office : Voltas House 'A', Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Chinchpokli, Mumbai 400 033, India.
Tel. No. : 91 22 66656666 Fax No. : 91 22 66656231
e-mail : shareservices@voltas.com Website : www.voltas.com
CIN : L29308MH1954PLC009371




Air Conditioner & Cooling Products




Home Appliances



Infrastructure Solutions & Projects



Textile Machinery, Mining & Construction Equipment



ELDECO HOUSING AND INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: Eldeco Corporate Chamber-1, 2nd Floor, Vibhuti Khand (Opp. Mandi Parishad), Gomti Nagar, Lucknow- 226010
CIN: L45202UP1985PLC099376
Website: www.eldecogroup.com, Email: eldeco@eldecohousing.co.in

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

(Amount in Lacs)

S. No.	Particulars	Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	3,157.75	5,156.62	2,751.50	12,226.33
2	Net Profit for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	1,064.16	1,542.06	1,024.92	4,528.05
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,064.16	1,542.06	1,024.92	4,528.05
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Extraordinary items)	799.33	1,169.63	762.52	3,385.82
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	800.53	1,170.90	763.69	3,390.61
6	Equity Paid up Share Capital	196.66	196.66	196.66	196.66
7	Earnings per share (Not annualised) :				
	Basic (Rs.)	8.13	11.89	7.75	34.43
	Diluted (Rs.)	8.13	11.89	7.75	34.43

Notes:-
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on August 12, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review on the financial results for the quarter ended June 30, 2024.
2. **Unaudited Financial Results (Standalone information)** (Amount in Lacs)

Particulars	Quarter ended June 30, 2024	Quarter ended March 31, 2024	Quarter ended June 30, 2023	Year ended March 31, 2024
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Revenue from operations	2,532.18	4,135.87	1,708.17	9,547.43
Profit before tax	1,042.05	1,593.79	633.33	3,994.63
Profit for the period	787.19	1,215.85	469.83	2,992.17

3. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the Company's website at www.eldecogroup.com.

For and on behalf of the Board
Eldeco Housing and Industries Limited
Sd/-
Pankaj Bajaj
Chairman cum Managing Director

Place: New Delhi
Date: 12.08.2024

